

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

पटना: 8 मार्च, 2021

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में दिनांक 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला उद्दमी श्रीमती दिव्या रानी सिंह, अध्यक्ष, जुट्स थी। कार्यक्रम में सभी विभागाध्यक्ष, दनियावां तथा फुलवारी शरीफ प्रखण्ड की 25 कृषक महिलाएं एवं राजकीय उच्च विद्यालय, महुआ बाग की 34 छात्राओं तथा संस्थान की 17 महिला कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ICAR गीत के पश्चात संस्थान के निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा मुख्य अतिथि के अभिनन्दन से हुई।

कार्यक्रम में संस्थान के महिला समिति की अध्यक्ष डॉ. शिवानी ने महिला दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला, उसके उपरांत निदेशक महोदय ने नारी शक्ति एवं देश के विकास में महिलाओं के अहम योगदान का जिक्र किया। उन्होंने विद्यालय की छात्राओं एवं महिला कृषकों को अपने क्षेत्र में प्रगति करने के लिए उत्साह वर्धन किया।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ स्वशक्तिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। संकोच की दीवार तोड़ना महिलाओं के लिए काफी जरूरी है क्योंकि उन्नति के पथ पर चढ़ने के लिए यह पहला कदम है। इसके बाद महिलाओं एवं छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किये। तत्पश्चात कृषि से सम्बंधित क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं का सम्मान किया गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक महिला कर्मी को संस्थान द्वारा विकसित धान प्रजाति स्वर्ण श्रेया, स्वर्ण शक्ति धान एवं स्वर्ण समृद्धि धान के बीजों का भी वितरण किया गया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के सभी सदस्यों डॉ. रजनी कुमारी, डॉ. रीना कमल, डॉ. रचना दुबे, डॉ. कीर्ति सौरभ, डॉ. कुमारी शुभा तथा श्रीमती प्रभा कुमारी ने तन्मयता से अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रचना दुबे, वैज्ञानिक ने किया।

